

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2011—कार्तिक 20, शक 1933

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर, 2011

शुद्धिपत्र

क्र. एफ. 1-23-2011-अठारह-3—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 5 मई 2011 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 28-एफ. 1-23-2011-अठारह-3, दिनांक 5 मई 2011 द्वारा नगरपालिका निगम रीवा के लिए सरल क्रमांक 3 पर मुद्रित एलडरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट श्री प्रबोध व्यास, पिता स्व. रामगोपाल व्यास, के स्थान पर श्री प्रबोध व्यास, पिता स्व. श्री जयगोपाल व्यास पढ़ा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर, 2011

शुद्धिपत्र

क्र. एफ. 1-23-2011-अठारह-3—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 14 जून 2011 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 31- एफ 1-23-2011-अठारह-3, दिनांक 14 जून 2011 के सरल क्रमांक 38(2) पर मुद्रित नगरपालिका इटारसी के लिए एलडरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट श्री दिनेश तिवारी, वार्ड क्रमांक 17, गोपाल नगर, इटारसी के स्थान पर श्री विनोद तिवारी, वार्ड क्रमांक 13, गोपाल नगर, इटारसी पढ़ा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव,